

विचार बिन्दु

संसार के दुःखियों में पहला दुःखी निर्धन है। उससे दुःखी वह है जिसे किसी का ऋण चुकाना हो। इन दोनों से अधिक दुःखी वह है, जो सदा रोगी रहता हो और सबसे दुःखी वह है, जिसकी पत्नी दुष्टा हो। -विदुरनीति

गहलोत सरकार के समय राजस्थान में वित्त प्रबंधन के हाल ठीक नहीं

राजस्थान के वित्तीय हालात पर सीएजी की नई सालाना रिपोर्ट आ गई है। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के सरकार के लेखों और खातों का विश्लेषण किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष आने वाली सीएजी की रिपोर्ट राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की जाती है। उनकी टिप्पणियों पर विधानसभा की जनलेखा समिति में चर्चा होती है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा जाता है। मगर आम तौर पर विधानसभा के गिने-चुने सदस्य ही इन रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। उन्हें गौर से पढ़ने और उसके आधार पर सदन में बहस करने की कोई जहमत नहीं उठाता। ऐसे में आम जन से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह ऐसी रिपोर्ट पढ़ कर राजकोष के प्रबंधन के बारे में गहराई से समझे और अपने उन प्रतिनिधियों से सवाल करे जिन्हें उसने अपना वोट देकर संसद और विधान सभाओं में भेजा है। सीएजी की यह रिपोर्ट हमें चिंता में डालती है, क्योंकि यह कहती है कि सरकार की प्रारितियों और व्यय अर्थात् आमदनी और खर्च के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। आमदनी अर्थात् खर्चों से कम है, जो कि इस रिपोर्ट के पढ़ कर हम पाते हैं कि राजस्थान सरकार की राजस्व प्रारितियों 2018-19 से 2022-23 तक 1,37,873 करोड़ से बढ़कर 1,94,988 करोड़ हुईं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार की आमदनी में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 9.75 प्रतिशत रही। इन राजस्व प्रारितियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 14.53 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 15.31 प्रतिशत हो गया, जो केंद्र सरकार से मिला। रिपोर्ट कहती है कि यह हालात राज्य की केंद्र पर बढती निर्भरता को दर्शाती है। हालांकि इसका एक सकारात्मक पहलू यह माना जा सकता है कि राज्य में इस दौरान विपक्ष की सरकार रही और उसको अनुदान देने में केंद्र सरकार ने भेद-भाव नहीं किया। हालांकि ऐसे राजनैतिक आरोप अमूमन लगते रहे हैं। राजस्थान को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्र के हिस्से के रूप में 14,554 करोड़ मिले।

इसे समझने के लिए किसी वित्तीय ज्ञान की डिग्री की जरूरत नहीं होती कि घाटे से गाड़ी नहीं चलती। जब राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता होती है तो उसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते में घाटा होगा। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में 28,900 करोड़ बढ़कर चालू वर्ष में 31,491 करोड़ रुपये का हो गया। इसे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वह 2018-19 में यह घाटा 2.23 प्रतिशत था जो बढ़ कर 3.17 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पूंजी खाते पर केवल 19,798 करोड़ खर्च किए। पूंजी खाता वह होता है जिसमें राज्य की संपत्ति का निर्माण होता जो राज्य को आमदनी देती है। यह पूंजीगत खर्च वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का केवल 8.03 प्रतिशत था। यह गौर करने की बात है कि पूंजीगत व्यय कुल उधार का मात्र 5.10 प्रतिशत था। इसका खुलासा करते हुए रिपोर्ट बताती है कि सरकार रुपये उधार लेकर उसका उपयोग मुख्य रूप से पूंजी निर्माण/विकास गतिविधियों पर करने के बजाय वर्तमान खर्च को पूरा करने और पुरानी उधारी चुकाने के लिए कर रही है। उधार लेकर उधारी चुकाने की नौबत हो तब तो सरकार से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह अपनी फिजूलखर्ची तो अंकुश लगाए। फिजूलखर्ची आलीशान सरकारी कार्यालयों के भवन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऐश-ओ-आराम पर ही नहीं होती बल्कि गरीबों की मदद के नाम पर मुगत सुविधाओं की बंदर-बांट पर भी होती है। प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी लोकतंत्र में सरकारें बेहतर शासन प्रशासन देकर आम लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने में असफल रहने के बाद मुगत की चीजें बांट कर लोगों के वोट पाने की जुगत में लगती रहती है। यह सारी दुनिया जानती है कि खुले बाजार की इफ़रात वाली अर्थव्यवस्था में बाजार तो खूब दमकता है मगर नई बन रही संपत्ति केवल 21 प्रतिशत आबादी के हाथों में सिमटी रहती है। सरकारें आम लोगों को अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाने के कठिन रास्ते पर चलने के बजाय बाजार की ताकतों के इशारों पर चलने लगती है। जबकि अधिकांश संपत्ति ऊपर की 21 प्रतिशत आबादी में बंट जाती है तब सरकार सबसे नीचे की आबादी को मुगत राशन, मुगत पानी, मुगत पैशन देकर अपने वोट बचाना चाहती है। मगर सार्वजनिक शिक्षा तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य से अपने हाथ खींचते हुए उन्हें निजी क्षेत्र के हवाली करती जाती है। इससे देश की 80 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहने को अभिशप्त हो जाती है। जब सरकारें राजकोष से रेवेडियां बांटने में रस लेने लगती है तब राज्य की वित्तीय व्यवस्था बिगाड़ती चली जाती है। मगर क्योंकि सरकार नोट छाप सकती है और उधार लेकर तथा करों से अपनी आवा बढ़ाने के इंतजाम करके काम चला सकती है इसलिए सरकारों की वित्तीय व्यवस्था ढहती नहीं। मगर वित्तीय व्यवस्था तनाव में जरूर आ जाती है जिसका खामियाजा विभिन्न करों की बढ़ोतरी तथा सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट के रूप में सामने आता है। इस बार की सीएजी रिपोर्ट राजस्थान की जिस वित्तीय तनाव को उजागर करती है उससे प्रत्येक नागरिक का चिंतित होना लाजिमी है।

इसे समझने के लिए किसी वित्तीय ज्ञान की डिग्री की जरूरत नहीं होती कि घाटे से गाड़ी नहीं चलती। जब राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता होती है तो उसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते में घाटा होगा। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में 28,900 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष में 31,491 करोड़ रुपये का हो गया। इसे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वह 2018-19 में यह घाटा 2.23 प्रतिशत था जो बढ़ कर 3.17 प्रतिशत हो गया।

राजस्थान के वित्तीय हालात पर सीएजी की नई सालाना रिपोर्ट आ गई है। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के सरकार के लेखों और खातों का विश्लेषण किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष आने वाली सीएजी की रिपोर्ट राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की जाती है। उनकी टिप्पणियों पर विधानसभा की जनलेखा समिति में चर्चा होती है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा जाता है। मगर आम तौर पर विधानसभा के गिने-चुने सदस्य ही इन रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। उन्हें गौर से पढ़ने और उसके आधार पर सदन में बहस करने की कोई जहमत नहीं उठाता। ऐसे में आम जन से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह ऐसी रिपोर्ट पढ़ कर राजकोष के प्रबंधन के बारे में गहराई से समझे और अपने उन प्रतिनिधियों से सवाल करे जिन्हें उसने अपना वोट देकर संसद और विधान सभाओं में भेजा है। सीएजी की यह रिपोर्ट हमें चिंता में डालती है, क्योंकि यह कहती है कि सरकार की प्रारितियों और व्यय अर्थात् आमदनी और खर्च के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। आमदनी अर्थात् खर्चों से कम है, जो कि इस रिपोर्ट के पढ़ कर हम पाते हैं कि राजस्थान सरकार की राजस्व प्रारितियों 2018-19 से 2022-23 तक 1,37,873 करोड़ से बढ़कर 1,94,988 करोड़ हुईं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार की आमदनी में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 9.75 प्रतिशत रही। इन राजस्व प्रारितियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 14.53 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 15.31 प्रतिशत हो गया, जो केंद्र सरकार से मिला। रिपोर्ट कहती है कि यह हालात राज्य की केंद्र पर बढती निर्भरता को दर्शाती है। हालांकि इसका एक सकारात्मक पहलू यह माना जा सकता है कि राज्य में इस दौरान विपक्ष की सरकार रही और उसको अनुदान देने में केंद्र सरकार ने भेद-भाव नहीं किया। हालांकि ऐसे राजनैतिक आरोप अमूमन लगते रहे हैं। राजस्थान को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्र के हिस्से के रूप में 14,554 करोड़ मिले।

इसे समझने के लिए किसी वित्तीय ज्ञान की डिग्री की जरूरत नहीं होती कि घाटे से गाड़ी नहीं चलती। जब राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता होती है तो उसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते में घाटा होगा। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में 28,900 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष में 31,491 करोड़ रुपये का हो गया। इसे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वह 2018-19 में यह घाटा 2.23 प्रतिशत था जो बढ़ कर 3.17 प्रतिशत हो गया।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



डॉ. रमेश बैरा

“उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए” के उद्घोष के जरिए युवाओं को विशेष रूप से उद्देलित करने वाले, तथा सामाजिक समानता, सांप्रदायिक संस्कार एवं समाजवाद के प्रबल पक्षधर, अपने समय के विद्रोही संन्यासी स्वामी विवेकानंद को सादर नमन। यह व्याख्यान मूलतः ‘सिलेक्टड वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद’ में संकलित विवेकानंद के भाषण एवं विचारों पर आधारित है, इनके सामाजिक चिंतन पर केंद्रित है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद ने तब तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपनाया, जब वे 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। विवेकानंद पर अपनी माता और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का गहरा असर था। 1897 में विवेकानंद ने कोलकाता के पास बेलूर में प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की अल्पयु में ही विवेकानंद का देहांत हो गया।

विवेकानंद के जीवन दर्शन के मुख्यतः तीन स्तंभ थे-प्रथम, वेदों तथा

वेदान्त की परंपरा; द्वितीय, गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका संपर्क एवं संवाद एवं तृतीय, उनके अपने जीवन का अनुभव। इन तीनों ही स्तंभों के माध्यम से विवेकानंद के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का निर्माण हुआ जो अंततोगत्वा उनके विचारों के आधार स्तंभ बने।

विवेकानंद जाति-व्यवस्था का अंत चाहते थे। विवेकानंद अपने समय से आगे थे। जिस समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता जाति प्रथा की स्पष्ट रूप से आलोचना करने में हिचकिया रहे थे, विवेकानंद ने शोषणकारी जाति प्रथा के खिलाफ दृढ़ता से आवाज उठाई। उन्होंने इसकी वंशानुगतता को बकवास कहा और निचली जातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा। विवेकानंद उच्च जाति के युवाओं को संबोधित करते हुए उनके जातीय श्रेष्ठता और छुआछूत संबंधी विचारों की तीव्र भर्त्सना करते हैं:—“और तुम लोग क्या हो?...पूरी जिंदगी केवल बेकार की बातें करने वाले, व्यर्थ बकवास करने वाले...अपनी खोपड़ी में सैकड़ों वर्षों के अंधविश्वास का कुड़वा-करकट परे बैठे, सैकड़ों वर्षों से केवल खान-पान की छुआछूत के विवाद में अपनी सारी शक्ति नष्ट करने वाले, जिनकी सारी इस्त्मायित को युगों के सामाजिक अत्याचार ने कुचल दिया है।” स्वामी विवेकानंद ने ब्राह्मणों के जन्म आधारित श्रेष्ठता के दम की कड़ी आलोचना की और उसे महज ‘मिथ्या’ कह कर खारिज कर दिया।

4 जुलाई 1897 को अल्मोड़ा से भगिनी निवेदिता को लिखा विवेकानंद का पत्र यह साबित करता है कि वे जो कहते थे वही करते भी थे। उस पत्र में वे लिखते हैं कि बुद्ध के जमाने के बाद पहली बार उनके आश्रम में ब्राह्मण युवा बिना किसी जाति-भेद के रोगियों की सेवा कर रहे हैं। विवेकानंद ने भारत को भयंकर गरीबी और पतन के लिए अंग्रेजी उपनिवेशवाद से ज्यादा जाति-व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। 11 सितंबर 1893 को शिकागो (अमेरिका) में हुए धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक वक्तव्य के माध्यम से भारत की एक वैश्विक सोच को सामने रखते हुए हिंदू धर्म का उदारवादी चेहरा दुनिया के सामने रखा था। पूरी दुनिया ने उनके भाषण को सराहा था। विवेकानंद का हिंदू धर्म, पाखंड और कर्मकांड विरोधी होने के साथ दलित, वंचित और श्रमिक वर्ग को न्याय दिलाने वाला सर्वसमावेशी था। इसमें भारत की आध्यात्मिकता और भौतिक विकास को मिली जुली ललक थी। इसमें सांप्रदायिक और जातीय नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी। यद्यपि वे समकालीन राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन उनका धर्म सामाजिक सत्ता से लगातार टकराता था। यही कारण है कि राजनीति के प्रति विरक्ति का भाव रखने वाले विवेकानंद कई राजनीति करने वालों के लिए प्रेरणास्रोत बनते रहे।

धर्म और देशभक्ति की आड़ में समाज और सत्ता पर वर्चस्व कायम रखने का इरादा रखने वाली विवेकानंद ताकतों वेशर्मी के साथ स्वामी विवेकानंद को अपनी विचार-परंपरा का पुरखा बनाया। इन्हें हथियाने की फूहड़ कीशिशं करती रही है और अब भी कर रही है, ताकि विवेकानंद की प्रखर सामाजिक चेतना का विभाजनकारी संकीर्ण राष्ट्रवाद के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सके। चूंकि इस खतरा का अंदाजा विवेकानंद को भी था, लिहाजा उन्होंने अपने प्रसिद्ध रामकृष्ण कास्ट, कल्चर एंड सोशलजिज्म’ में कहा था-“कुछ लोग देशभक्ति की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मुख्य बात है-हृदय की भावना। यह देखकर आकें मन में क्या भाव आता है कि न जाने कितने समय से

देवों और ऋषियों के वंशज पशुओं जैसा जीवन बिता रहे हैं? देश पर छाया अज्ञान का अंधकार क्या आपको सचमुच बेचैन करता है?...यह बेचैनी ही आपकी देशभक्ति का पहला प्रमाण है।”

चूंकि विवेकानंद राजनेता नहीं बल्कि संन्यासी थे-समाज विज्ञानी संन्यासी, लिहाजा वह हिंदू समुदाय की खूबियों और खामियों से भलीभाँति परिचित थे। हिंदू समाज में आज जो कट्टरता व्याप्त है, उसके खतरों को विवेकानंद की दी हुई चेतावनी से भी समझा जा सकता है। उन्होंने अपने समय के हिंदू कट्टरपंथियों और पाखंडी धर्माचार्यों को ललकारते हुए कास्ट, कल्चर एंड सोशलजिज्म’ में ही कहा है-“शुरू में अपने हक मॉगने के लिए जब भी मुँह खोला, उनकी जीभें काट दी गईं। उनको जानवरों की तरह चाबुक से पीटा गया। लेकिन अब आप उन्हें उनके अधिकार लौटा दो, वरना जब वे जागेंगे और आप (उच्च वर्ग) के द्वारा किए गए शोषण को समझेंगे, तो अपनी फूँक से आप सब को उड़ा देंगे। यही (शुद्ध) वे लोग हैं, जिन्होंने आपको सभ्यता सिखाई है और ये ही आपको नीचे भी गिरा देंगे। सोचिए किस तरह शक्तिशाली रोमन सभ्यता गाँलों के हाथों मिट्टी में मिला दी गई।”

चूंकि विवेकानंद जीवन में धर्म और अध्यात्म को बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन धार्मिक संकीर्णता और रूढ़िवाद के सख्त खिलाफ थे वे मत-मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर को गौण मानते थे। धर्म की आड़ में अंधश्रद्धा के खिलाफ थी। तर्क और विवेक को सर्वोच्च स्थान देते थे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की तरह विवेकानंद ने धार्मिक संकीर्णता का विरोध करते हुए सर्वधर्म सम्भाव अर्थात् सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया। 10 जून 1898 में नैनिताल के अपने एक मुस्लिम मित्र

मोहम्मद सरफराज हुसैन को लिखे पत्र में स्वामी जी ने लिखा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों-हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ही एकमात्र उम्मीद है। विवेकानंद ने कहा है कि भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद देश की आबादी के एक बड़े हिस्से ने इस्लाम कुबूल कर लिया था, लेकिन साथ ही वह कहते हैं कि यह सब तलवार के जोर से नहीं हुआ था। धार्मिक नफरत के सख्त खिलाफ थे स्वामी विवेकानंद। हिंदुत्व है कि स्वामी विवेकानंद। हिंदुत्व विवेकानंद के नाम का इस्तेमाल के खिलाफ नफरतभरी विचारधारा को सही ठहराने के लिए कुछ संगठन स्वामी विवेकानंद के नाम का इस्तेमाल वैसे समय से करते आ रहे हैं, उनके समय में भी करते थे। लेकिन चूंकि ऐसे लोगों की शूद्र मानसिकता और मुसलमानों के प्रति उनकी द्वेष-भावना से विवेकानंद भलीभाँति परिचित थे, लिहाजा उन्होंने कहा था-“इस आराजकता और कलह के बीच भी मेरे महत्त्व में संपूर्ण भारत की जो तस्वीर उभरती है, वह शानदार और अद्वितीय है, उसमें वैदिक दिग्गज और इस्लामिक शरीर होगा।” कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद अगर आज जिंदा होते तो उनकी नसीहतें सुनकर हिंदू कट्टरता के प्रचारक विवेकानंद को भी सुडो सेकुलर या हिंदू विरोधी करार दे रहे होते। विवेकानंद को हजम करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए हम कहते हैं, अपने-अपने विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अगर रहे।

(यह लेख विवेकानंद जयंती के अवसर पर दिए व्याख्यान के प्रमुख अंशों पर आधारित है।)

—डॉ. रमेश बैरा,
राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर
एवं प्रदेश संयोजक, राजस्थान
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
शिक्षक संघ रुडवा डेमोक्रेटिक।

दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित पाबू पाठशाला को आर्य समाज स्कूल में मर्ज किया

स्कूल में मर्ज के फैसले ने 61 दिव्यांग छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डाला

बीकानेर, (निर्स) विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित पाबू पाठशाला को आर्य समाज स्कूल में मर्ज करने के फैसले ने 61 दिव्यांग छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है।

इस फैसले से चिंतित अभिभावक अपने बच्चों को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल को यथावत सभी मांग की, लेकिन अधिकारियों के अनुपस्थित

अभिभावक अपने बच्चों को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे

अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के कारण अभिभावक निराश लौटे

रहने के कारण वे निराश लौटने को मजबूर हो गए। अभिभावकों का कहना है कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं और अनुकूल वातावरण से

युक्त इस स्कूल का विलय उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इनमें से कई बच्चे ऐसी विशेष आवश्यकताओं वाले हैं, जिन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ाई करने में कठिनाई होगी।

अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और पाबू पाठशाला को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखा जाए। उनका कहना है कि यदि यह फैसला जल्द नहीं बदला गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश से पहले स्कूल की जमीनी हकीकत भी नहीं देखी जिस जगह स्कूल का एकीकरण किया है वहां रेंप भी नहीं है।

देशभर में दौड़ रहे जोधपुर रेलवे वर्कशॉप में बने एन.एम.जी.एच.एस. डिब्बे

जोधपुर, (कासं)। उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे वर्कशॉप में खालती से निर्मित एनएमजीएचएस ट्रेन के डिब्बे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

निम्न डिब्बों की ओर और बंद दरवाजों वाली एनएमजीएचएस ट्रेन में माल लदान के उपयोग में लाए जाने वाले एनएमजीएचएस डिब्बे दरअसल ट्रेनों के वो कोच होते हैं जिनका 25 वर्षों तक उपयोग लेने के बाद रेलवे यात्री सेवा को दृष्टि से रिटायर कर चुका होता है, लेकिन रिटायर हो चुके कोच को भी मॉडिफाई कर रेलवे उसकी उपयोग अवधि 10 वर्ष और बढ़ा देता है जिसे रेल की भाषा में एनएमजीएचएस (न्यूली मॉडिफाईड गुड्स साइड) कहा जाता है। भारतीय रेलवे के प्रमुख

जोधपुर रेलवे वर्कशॉप में रेलवे के रिटायर हो चुके डिब्बों को बहुदेशीय एनएमजीएचएस कोचों में तब्दील करने का काम पिछले चार वर्षों से चल रहा है तथा वर्कशॉप द्वारा अब तक इस तरह के 101 डिब्बे तैयार करके राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है तथा रेलवे बोर्ड से प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप यह कार्य निरंतर जारी है।

जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह का इस संबंध में कहना है कि रेलवे में माल लदान की दृष्टि से एनएमजीएचएस डिब्बों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा निजी कंपनियों की ओर से सुरक्षित माल लदान के लिए इनकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि रेल पट्टियों पर 25 वर्षों तक दौड़ने के बाद आईसीएफ कोच को पैसेंजर ट्रेन से रिटायर कर

दिया जाता है और ऐसे डिब्बों को एनएमजीएचएस रेल के नाम से अटो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी सभी खिड़कियां और दरवाजे सील कर दिए जाते हैं।

पंकज कुमार सिंह का कहना है इस वेगन को इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि इसमें कार, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक और दुपहिवा वाहनों को आसानी से लोड-अनलोड किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस तरह के डिब्बे में रैफ़िजरेटर की तरह रैसस सिस्टम भी विकसित किया गया है जिससे इसमें सब्जियों का लदान भी किया जाता है।

एनएमजीएचएस डिब्बे दरअसल ट्रेनों के वो कोच होते हैं, जिनका 25 वर्षों तक उपयोग लेने के बाद रेलवे यात्री सेवा की दृष्टि से रिटायर कर चुका होता है

दिया जाता है और ऐसे डिब्बों को एनएमजीएचएस रेल के नाम से अटो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी सभी खिड़कियां और दरवाजे सील कर दिए जाते हैं।

पंकज कुमार सिंह का कहना है इस वेगन को इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि इसमें कार, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक और दुपहिवा वाहनों को आसानी से लोड-अनलोड किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस तरह के डिब्बे में रैफ़िजरेटर की तरह रैसस सिस्टम भी विकसित किया गया है जिससे इसमें सब्जियों का लदान भी किया जाता है।

मुख्य कारखाना प्रबंधक मनोज जैन ने बताया कि जोधपुर रेलवे वर्कशॉप से पहला एनएमजी कोच 23 नवंबर 2020 को तैयार होकर निकला, जिसकी सफलता को देखते

हुए उसे 2020-21 में 35, 2021-22 में 10 और 2023-24 में 29 तथा चालू वित्त वर्ष में 120 रिटायर आईसीएफ डिब्बों को एनएमजीएचएस डिब्बों में तब्दील करने का लक्ष्य दिया गया है जिसमें से 14 जनवरी तक 27 एनएमजीएचएस डिब्बे तैयार कर मंडलों को उपयोग के लिए दे दिए गए हैं।

सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने जानकारी दी कि एक रिटायर हो चुके आईसीएफ डिब्बे को वर्कशॉप में एनएमजीएचएस डिब्बे में तब्दील करने में करीब साढ़े ग्यारह लाख रुपए की लागत आती है और इसे सामान्य तौर पर 16 दिनों में तैयार कर दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए माई एसएलआर, जनरल और स्लीपर डिब्बे ही काम में लिए जाते हैं।

राशिफल बुधवार 22 जनवरी, 2025



पंकज कुमार सिंह

माघ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2081, स्वाती नक्षत्र रात्रि 2:34 तक, शूल योग रात्रि 4:37 तक, कौलव करण दिन 3:19 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मिथुन, बुध-धनु, गुरु-वृष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज महापात योग रात्रि 4:50 तक है। श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:54 तक, शुभ 11:19 से 12:38 तक, चर 3:17 से 4:37 तक, लाभ 4:37 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:56

मेघ परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे अटो कार/मनभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन परिवर्जन के व्यवहार के कारण मन विचलन हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में लुब्धता बनी रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

कर्क घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

सिंह व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बन्दे लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्दे लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा।

धनु आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिग्गज अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संचालित स्तों से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर व्यावसायिक कार्यों के लिए दिग्गज अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशयसना प्राप्त होंगे। अटके कार्य बन्दे लगे। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्ययधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलंब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

बधेरे ने किसान पर हमला किया

झिलाय, (निर्स)। सोमवार की रात गांव खेडीमानपुर में एक युवक पर बधेरे ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। परिवारजनों ने उसका गांव में ही उपचार करवाया। लोगों ने बधेरा की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जंगली जानवर के पग मार्क देखे। ग्रामीणों ने बताया कि कालू शर्मा रात खेत पर रखवाली कर रहा था। घर वापसी के दौरान बधेरा ने उस पर हमला कर दिया। सूचना पर सरपंच सांवरमल मीणा, एसीएफ अनुराग महर्षि, रैजर धारिलाल व टोंक लनाई रैजर कालूराम मौके पर पहुंचे।

बधेरे ने किसान पर हमला किया

झिलाय, (निर्स)। सोमवार की रात गांव खेडीमानपुर में एक युवक पर बधेरे ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। परिवारजनों ने उसका गांव में ही उपचार करवाया। लोगों ने बधेरा की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जंगली जानवर के पग मार्क देखे। ग्रामीणों ने बताया कि कालू शर्मा रात खेत पर रखवाली कर रहा था। घर वापसी के दौरान बधेरा ने उस पर हमला कर दिया। सूचना पर सरपंच सांवरमल मीणा, एसीएफ अनुराग महर्षि, रैजर धारिलाल व टोंक लनाई रैजर कालूराम मौके पर पहुंचे।

बधेरे ने किसान पर हमला किया

झिलाय, (निर्स)। सोमवार की रात गांव खेडीमानपुर में एक युवक पर बधेरे ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। परिवारजनों ने उसका गांव में ही उपचार करवाया। लोगों ने बधेरा की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जंगली जानवर के पग मार्क देखे। ग्रामीणों ने बताया कि कालू शर्मा रात खेत पर रखवाली कर रहा था। घर वापसी के दौरान बधेरा ने उस पर हमला कर दिया। सूचना पर सरपंच सांवरमल मीणा, एसीएफ अनुराग महर्षि, रैजर धारिलाल व टोंक लनाई रैजर कालूराम मौके पर पहुंचे।

बधेरे ने किसान पर हमला किया

झिलाय, (निर्स)। सोमवार की रात गांव खेडीमानपुर में एक युवक पर बधेरे ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। परिवारजनों ने उसका गांव में ही उपचार करवाया। लोगों ने बधेरा की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जंगली जानवर के पग मार्क देखे। ग्रामीणों ने बताया कि कालू शर्मा रात खेत पर रखवाली कर रहा था। घर वापसी के दौरान बधेरा ने उस पर हमला कर दिया। सूचना पर सरपंच सांवरमल मीणा, एसीएफ अनुराग महर्षि, रैजर धारिलाल व टोंक लनाई रैजर कालूराम मौके पर पहुंचे।

बधेरे ने किसान पर हमला किया